

The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E) Mumbai- 400 051

SRF/SEC/ 2021

22nd January,2021

Dear Sir,

<u>Sub: Newspaper Clippings of Unaudited financial Results for quarter and nine months ended</u> <u>December 31, 2020 - SRF Limited</u>

In Compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of unaudited results published in Business Standard (English) and Jansatta (Hindi) newspaper. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.srf.com

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **SRF LIMITED**

Rajat Lakhanpal

VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Encl: A/a

Reserve price

EMD



Name & Add. of

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया | CENTRAL OFFICE: Chandra Mukhi, Nariman Point, Mumbai REGIONAL OFFICE: 37/2/4 Sanjay Place, Agra-282002 Phone : 0562-2856960, 2520690, 9759700929

Dt. of 13(2) Notice

[Appendix IV-A (See Proviso to Rule 8(6)]

Sale Notice for Sale of Immovable Properties E - Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property/les mortgaged/charged to the Central Bank of India, Secured Creditor, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Central Bank ofindia, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is", on 25/02/2021 between 12:00 Noon to 4:00 PM, for the recovery of dues to the Central Bank of India, SecuredCreditor from the following Borrower (s) and Guarantor(s). The Reserve Price and Earnest Money Deposit (EMD) of the resepective property/les is furnishing below

Last Date and Time for submission of EMD amount is: Date 24.02.2021 upto 4:00 PM

& Outstanding Dues
Dt. of Possession Bid Increase Borrower Property Notice Amount

Description of Mortgaged

Chief Manager, Branch – Aligarh, Mob no 9336479912, Tel no 0571-2512619, E-mail ID: bmagra0243@centralbank.co.in Rs. 950.70 lac

Borrowers- Kshetriya All that part & parcel of the Commercial cum Reisdential Shri Gandhi Ashram, Property situated at Ramghat Road, Harduaganj, Aligarh, Add- Banna Area-5580.24 Sq. mtr., Property in the name of Kshetriya Shri Gandhi Ashram Harduaganj Aligarh, Bounded as: Less Recovery thereafter, If any East-Part of Building Ghandhi Ashram, West-Others Reserve price Shri Gandhi Ashram, Property situated at Ranghat Road, Italousgan, Rs. 95.07 lac EMD Rs. 1,00,000/-

Date of E- Auction 25-02-2021 between 12:00 Noon to 4:00 PM with Auto Extension of 10 Minutes

Intersted Bidders will register on website https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi and upload their KYC documents and after verification of KYC documents by the service provider, EMD Amount to be deposited in Global EMD wallet through NEFT only (Procedure- Buyer/ Bidder has to login in his MSTC-IBAPI portal using his login id & password. Click on the link "Pay Pre-Bid EMD", generate a challan selecting the option NEFT & the go to bank to make NEFT payment).

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the website of Central Bank of India, (as Secured Creditor's), i.e. https://www.centralbankofindia.co.in, or IBAPI portal https://www.ibapi.in and

Bank's approved service provider's website i.e. https://www.mstcecommerce.com. Date: 21-01-2021 Place: Allgarh **Authorised Officer**

इंडियन बैंक 🕰 इलाहाबाद

Indian Bank

ALLAHABAD

POSSESSION NOTICE (for immovable properties under Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE {for immovable properties under Rule 8(1)}
The Authorized Officer of Indian Bank (e-Allahabad bank), under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-3of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrower/guarantor to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrower/Guarantor having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken the possession of the properties described herein below in exercise to powers conferred on hin/her under section 13(4) of the said act read with the Rule 8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrower/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of Indian Bank (e-Allahabad bank), for the amounts and interest thereon. Details of the mortgaged Properties of which the possession had been taken is as follows.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) for section 13 of Act., in respect of time available, to redeem the secured assets.

avallable, to redeem the	secured assets.	- 35		
Name & Address of Borrowers/Mortgagor	Details of the Immovable Properties on which possession taken Branch- Runkata, Agra	Date of demand notice		Amt. Due as per notice
Verma S/o Satish Chandra Verma & Kavita Verma W/o Manoi Verma Add	All that Part and Parcel of land and building consisting of Property No. 33/163, F7-A Flat No. 104 First Floor Sain Royal Complex Situated at Plot No. 903 & 904, New Adarsh Nagar Hariparwat Ward, Agra, Area-97.55 Sq. Mtr., in the name of Shri Manoj Verma & Kavita Verma, Bounded as: East- Others Property, West- Corridor & Exit, North- Others Property, South- Flat No.103	15-01-2021	16-01-2021	17,33,900/- as on 28-10-2020 + Interest & other expenses
Mr. Chetan Kumar & Shekhar Kumar S/o Vinod Kumar, Mortgagor- Mrs. Guddi Devi, Add. of All- 31/35/7/RIC	All that Part and Parcel of land and building consisting of Property No. 31/35/7/RIC, Kedar Nagar Situated at Rajpur Chungi KH No. 515 Mauza Ulkharra, Tajganj, Agra, Area- 172.23 Sq. Mtr. (206 yard), in the name of Smt. Guddi Devi Wo Vinod Kurnar, Bounded as: East- Road 12 Ft. wide, West- Property of others, North- Property of Brijmohan, South- Other property	23-10-2020	16-01-2021	13,12,212/- as on 23-10-2020 + interest & other expenses
Demous-Martenes Ma	Branch- Hotel Clark Shiraj, Baluganj, Agra			
Shribhagwan Traders, Prop. Shri Vijay Kumar S/o Shri Munna Lal, Business Add Bagh Rohta, Gwallor Road, Agra, Guarantors- Mr. Vijay Kumar, Mr. Ajay Kumar Both S/o Shri Munna Lal & Shri Munna Lal S/o Late Shri Bhagwan Dass.	Bounded as: East- House of Har Govind, West- 6Ft. wide Rasta, North- House of Ramesh Chand, South- House of Panna Lal & Bihari Lal	11-11-2019	19-01-2021	30,24,435/- as on 18-01-2021 + Interest & other expenses
P B S Footwear Prop. Mr. Himachal S/o Late Shri Sohan Lai, Business Add 24/117, Nala kazi para Talaiya, Agra, Guarantors- Mr. Pradeep Kumar, Mr.	Rakab Ganj Ward, Teh. & Distt. Agra, Area-52.68 Sq. Mtr., in the name of Shri Pradeep Kumar & Shri Himachal S/o Late Shri Sohan Lal, Bounded as: East- House of Bihari Lal, West- House of Ninnumal, North- Sadar Darwaja Their after Rasta Chak. South- House of Ghasi	11-11-5019	19-01-2021	23,72,214/- as on 18-01-2021 + Interest & other expenses
Place : Agra	Date : 22-01-2021	Auth	orlse	d Officer



SRF LIMITED

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091 Tel. No. (Regd. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900 | E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197

STANDALONE

CONSOLIDATED

STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2020

1			UIAIID	ALUITE		CONSCLIDATED				
	Particulars 31-		QUARTER ENDED NINE MONTHS ENDED			QUARTE	R ENDED	NINE MONTHS ENDED		
SI. No.			31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-19	
			(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1	Total Income from Operations	1810.86	1651.84	4865.11	4684.32	2146.41	1850.49	5792.39	5351.58	
2	Profit / (Loss) for the period before tax from continuing operations	369.72	221.13	877.04	585.77	442.75	259.06	1100.99	695.06	
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax from continuing operations*	256.65	311.77	614.02	619.01	324.25	345.47	816.80	721.74	
4	Profit / (Loss) for the period before tax from discontinued operations	-	-		241.82	(1.85)	(2.75)	(2.14)	165.17	
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax from discontinued operations		•	5	180.59	0.48	(2.48)	0.22	111.60	
6	Net Profit / (Loss) for the period after tax (including discontinued operations)	256.65	311.77	614.02	799.60	324.73	342.99	817.02	833.34	
7	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / {Loss} for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	269.84	293.79	675.19	764.02	385.27	355.50	937.83	840.07	
8	Paid up Equity Share Capital	59.25	57.48	59.25	57.48	59.25	57.48	59.25	57.48	
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt			250.00	300.00			250.00	300.00	
10	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -									
	(a) Basic :	43.54	54.24	105.92	139.11	55.09	59.67	140.95	144.98	
L	(b) Diluted :	43.54	54.24	105.92	139.11	55.09	59.67	140.95	144.98	

* Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 was introduced by the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019. During the previous year, based on the estimate of expected timing of exercising of the option under Section 115BAA, the Company had re-measured its deferred tax balances. Consequently, tax credit (net of MAT adjustment) of Rs. 123.42 Crores was recorded in the Statement of Profit and Loss during the quarter and nine months ended December 31, 2019. NOTE:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the Quarterly and yearly Financial results are available on the website of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website

> For and on behalf of the Board **Ashish Bharat Ram Managing Director**

Place : Gurugram

Date: January 21, 2021

We always find a better way

Chemicals Business | Packaging Films Business | Technical Textiles Business

TIMEX GROUP INDIA LTD. (CIN: L33301DL1988PLC033434)

legd. Office: E-10, Lower Ground Floo Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024 Ph.: 011-41021297 Email id: investor.relations@timex.com

Website www.timexindia.com NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Notice is hereby giver that a Meeting of the Board of Directors will be held on Wednesday, 3rd February 2021, inter alia, to consider and approving Un-audited Financial Results of the Company for the quarter & nine month ended 31st December, 2020 The said Notice may be accessed or

the Company's website a www.timexindia.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at www.bseindia.com For TIMEX GROUP INDIA LIMITED

Dhiraj Kumar Maggo GM-Legal, HR & Company Secretary Date: 21.01.2021



INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED

Regd. Off.: 1st Floor, Unit No.1.14(a), Avanta Business Centre Southern Park, D-2, District Centre, Saket, New Delhi-110017, India Corp. Off.: Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers Sector 16B, Gautam Buddha Nagar, Noida-201301 Uttar Pradesh, India CIN: L74999DL2007PLC277039 Website: www.iexindia.com. Ph. No.: +91 -0120-464 8100, Fax No.: +91-0120-464 8115

Extract of the unaudited Financial Results for Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2020

Amount in ₹ Lakh

ı					Consc	lidated			Standalone					
	SI.	Particulars	Quarter Ended		Nine Mo	nths Ended	Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended	
١	No.	, and and	31 Dec 2020 Unaudited	30 Sep 2020 Unaudited	31 Dec 2019 Unaudited	31 Dec 2020 Unaudited	31 Dec 2019 Unaudited	31 Mar 2020 Audited	31 Dec 2020 Unaudited	30 Sep 2020 Unaudited	31 Dec 2019 Unaudited	31 Dec 2020 Unaudited	31 Dec 2019 Unaudited	31 Mar 2020 Audited
1	1	Revenue from Operations (a)	8,523.18	7,091.85	5,968.24	22,403.44	18,768.69	25,713.11	8,501.66	7,076.65	5,968.24	22,209.09	18,768.69	25,703.11
ı		Other Income (b)	1,086.30	779.20	973.80	3,186.49	3,011.49	4,026.95	1,066.70	858.78	970.47	3,348.23	3,008.16	4,012.11
L		Total Income (a+b)	9,609.48	7,871.05	6,942.04	25,589.93	21,780.18	29,740.06	9,568.36	7,935.43	6,938.71	25,557.32	21,776.85	29,715.22
2		Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7,574.26	5,847.49	5,266.45	19,058.20	16,802.41	22,561.93	7,828.07	6,156.40	5,327.88	19,805.93	16,863.84	22,778.63
3		Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7,574.26	5,847.49	5,266.45	19,058.20	16,802.41	22,561.93	7,828.07	6,156.40	5,327.88	19,805.93	16,863.84	22,778.63
4		Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,814.40	4,433.49	4,169.03	14,457.32	13,010.09	17,571.79	6,007.72	4,669.91	4,230.46	14,966.06	13,071.52	17,791.61
5		Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,817.30	4,442.21	4,166.96	14,459.21	13,004.48	17,531.67	6,010.16	4,687.44	4,228.39	14,976.30	13,065.91	17,751.49
6	3	Equity Share Capital	2,984.57	2,983.81	2,982.35	2,984.57	2,982.35	2,983.24	2,984.57	2,983.81	2,982.35	2,984.57	2,982.35	2,983.24
7		Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	35,811.92	35,811.92	34,007.71	35,811.92	34,007.71	34,007.71	36,031.74	36,031.74	34,007.71	36,031.74	34,007.71	34,007.71
8	3	Earnings Per Share* (of ₹ 1/- each)												
1	9	- Basic:	1.95	1.49	1.39	4.85	4.36	5.89	2.01	1.57	1.42	5.02	4.38	5.96
L		- Diluted:	1.95	1.49	1.39	4.85	4.36	5.89	2.01	1.57	1.42	5.02	4.38	5.96

*Not annualized for quarterly results

Notes:

- a. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Unaudited Financials Results for the Quarter ended 31 December 2020 filed with the Stock Exchanges (BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd, the Stock Exchanges where the Company's shares are listed) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Results are available on the websites of the BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd
- (i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com), and on the website of the Company i.e. www.iexindia.com. The financial results have been reviewed by the Audit Committee at its Meeting held on 21 January, 2021 and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 21 January, 2021. The statutory auditors of the Company have carried out limited review of the
- The Board of Directors at their Meeting held on 21 January, 2021, declared an interim dividend of ₹2.5 per equity share of face value of Re.1/-

For Indian Energy Exchange Limited

Satyanarayan Goel Chairman DIN: 02294069

Place: Noida Date: 21 January 2021













REPAIRING FRAYED ALLIANCES

World hopes for renewed US cooperation under Biden

China, whose US relations

nosedived due to widespread

frustration in Washington over

its human rights record and

accusations of technology

theft, expressed hope about

the change in the White House.

cult and extraordinary time,

both the Chinese and Ameri-

can people deserve a better

future," Foreign Ministry

spokesperson Hua Chunying

Biden "understands the

said at a daily briefing.

"I think after this very diffi-

ASSOCIATED PRESS Mexico City

WORLD LEADERS WEL-**COMED** into their ranks the new US President Joe Biden, noting their most pressing problems, including the Covid-19 pandemic and climate change, require multilateral cooperation, an approach his predecessor Donald Trump ridiculed.

Many expressed hope Biden would right US democracy two weeks after rioters stormed the Capitol, shaking the faith of those fighting for democracy in their own countries.

Governments targeted and sanctioned under Trump embraced the chance for a fresh start with Biden, while some heads of state who lauded Trump's blend of nationalism and populism were more restrained in their expectations.

But the chance to repair frayed alliances and work together on global problems carried the day.

importance of cooperation among nations," said former Colombian president and Nobel Peace Prize winner Juan Manuel Santos, who left office in 2018. "As a matter of fact, if we don't cooperate, all nations, to fight climate change, then we will all perish. It's as simple as that."

President French Emmanuel Macron and Tibetan spiritual leader the Dalai Lama were among those welcoming US attention to climate change.

After Trump withdrew the US from the Paris climate accord, Biden reversed the move in the first hours of his presidency Wednesday.

With Biden, "we will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet," Macron wrote on Twitter. "Welcome back to the Paris Agreement!"

Other European allies saw a chance to come in out of the cold after strained relationships with the Trump administration.

Biden to order masks, traveller quarantines **PRESIDENTJOE BIDEN** will

push for additional travel safety during the coronavirus pandemic by requiring people to wear masks in airports and on planes while enforcing quarantines for people who arrive in the US.—BLOOMBERG

Prez Biden faces a more confident China after US chaos: As a new US president takes office, he faces a determined Chinese leadership that could be further

emboldened by America's troubles at home. The disarray in America, from the rampant Covid-19 pandemic to the January 6 riot at the Capitol, gives China's

ruling Communist Party a boost as it pursues its long-running quest for national "rejuvenation", a bid to return the country to what it sees as its rightful

place as a major nation. For Joe Biden, sworn in Wednesday as the 46th presi dent, that could make one of his major foreign policy challenges. **BLOOMBERG**



SRF LIMITED

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091 Tel. No. (Regd. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900 | E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197

(Rs. in Crores)

			STAND	ALONE			CONSO	LIDATED	
		QUARTE	R ENDED	NINE MON	THS ENDED	QUARTE	R ENDED	NINE MONTHS END	
SI. No.	Particulars	31-Dec-20	31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-19
IVO.	5550A06094009	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations	1810.86	1651.84	4865.11	4684.32	2146.41	1850.49	5792.39	5351.58
2	Profit / (Loss) for the period before tax from continuing operations	369.72	221.13	877.04	585.77	442.75	259.06	1100.99	695.06
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax from continuing operations*	256.65	311.77	614.02	619.01	324.25	345.47	816.80	721.74
4	Profit / (Loss) for the period before tax from discontinued operations	9	-	20	241.82	(1.85)	(2.75)	(2.14)	165.17
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax from discontinued operations		8	20	180.59	0.48	(2.48)	0.22	111.60
6	Net Profit / (Loss) for the period after tax (including discontinued operations)	256.65	311.77	614.02	799.60	324.73	342.99	817.02	833.34
7	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	269.84	293.79	675.19	764.02	385.27	355.50	937.83	840.07
8	Paid up Equity Share Capital	59.25	57.48	59.25	57.48	59.25	57.48	59.25	57.48
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt			250.00	300.00			250.00	300.00
10	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			1991/2012/2014 (100/00)	200000000000000000000000000000000000000				************
	(a) Basic :	43.54	54.24	105.92	139.11	55.09	59.67	140.95	144.98
	(b) Diluted :	43.54	54.24	105.92	139.11	55.09	59.67	140.95	144.98

STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2020

* Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 was introduced by the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019. During the previous year, based on the estimate of expected timing of exercising of the option under Section 115BAA, the Company had re-measured its deferred tax balances. Consequently, tax credit (net of MAT adjustment) of Rs. 123.42 Crores was recorded in the Statement of Profit and Loss during the quarter and nine months ended December 31, 2019.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and yearly Financial results are available on the website of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.srf.com).

Place : Gurugram Date: January 21, 2021 For and on behalf of the Board Ashish Bharat Ram **Managing Director**

We always find a better way

Chemicals Business | Packaging Films Business | Technical Textiles Business

Amazon offers assist with US Covid-19 vaccine distribution

ASSOCIATED PRESS Seattle, January 21

AMAZON IS OFFERING its colossal operations network and advanced technologies to assist President Joe Biden in his vow to get 100 million Covid-19 vaccinations to Americans in his first 100 days in office.

"We are prepared to leverage our operations, information technology, and communications capabilities and expertise to assist your administration's vaccination efforts," wrote the CEO of Amazon's Worldwide Consumer division, Dave Clark, in a letter to Biden.

"Our scale allows us to make a meaningful impact immediately in the fight against Covid-19, and we stand ready to assist you in this effort." Amazon said that it has already arranged a licensed third-party occupational health care provider to give vaccines on-site at its facilities for its employees when they become available.

Amazon has more than 800,000 employees in the United States, Clark wrote, most of whom essential workers who cannot work from home and should be vaccinated as soon as possible.

Biden will sign 10 pandemicrelated executive orders on Thursday, his second day in office, but the administration says efforts to supercharge the rollout of vaccines have been hampered by lack of cooperation from the Trump administration during the transition. They say they don't have a complete understanding of the previous administration's actions on vac-



- Amazon is offering its colossal operations network and advanced technologies to assist President Joe Biden
- The president vowed to get 100 million Covid-19 vaccinations to Americans in his first 100 days in office

cine distribution.

Biden is also depending on Congress to provide \$1.9 trillion for economic relief and Covid-19 response.

There are a litany of complaints from states that say they are not getting enough vaccine even as they are being asked to vaccinate a broader swath of Americans. According to data through January 20 from Johns Hopkins University, the sevenday rolling average for daily new deaths in the US rose over the past two weeks from 2,677.3 on January 6 to 3,054.1 on Wednesday.

in the US have died from Covid-19.

HELPING HAND

More than 400,000 people

Saudi Arabia redefines role as world's defender of Muslims

BLOOMBERG January 21

WHEN CHINESE DIPLOMAT Tan Banglin defended his country's treatment of Muslims amid an international outcry, his comments were less remarkable than where he made them.

In a column last July for one of the most widely read newspapers in Saudi Arabia, the traditional protector of Muslims worldwide, Tan talked about how the Communist Party had united with people in Xinjiang province, leading to "great" changes. That's as nations including the US were accusing China of putting Uighurs into detention camps.

The voice given to China's consul general in Jeddah, less than 70 kilometres from Islam's holiest city of Mecca, reflects the new political reckoning under Crown Prince Mohammed bin Salman as he prioritises more secular national interests at a critical juncture for thekingdom.Andit's one that may serve him well as the administration changes in Washington, despite US opposition to Beijing's actions in Xinjiang.

being shaped more by hard-nosed business calculations, shifting geopolitical realities and the emergence of clean energy as a competitor to oil while facing a

The Saudi world view is being shaped more by hard-nosed business calculations, shifting geopolitical realities and the emergence of clean energy as a competitor to oil while facing a challenge from Turkey for leadership of the Sunni Muslim sphere.

The kingdom has been less vocal on the Palestinian issue, which for decades was its cause célèbre. Saudi support for the Muslim population has been conspicuous by its absence in the disputed region of Kashmir, with the Pakistan government turning to Turkeywhile Prince Mohammed increases trade with India.

INDIA'S NO.1 TILE COMPANY




EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2020

(₹ in crores, except per share data)

Sr.		Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended
No.	Particulars	31 December 2020	31 December 2020	31 December 2019
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Income			
	a) Revenue from operations	838.32	1828.39	741.30
	b) Other income	6.45	13.86	5.13
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	158.05	243.54	83.84
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	158.05	243.54	83.84
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and after minority interest)	118.94	180.96	61.54
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit for the period (after tax), Other comprehensive income (after tax) and after minority interest]	118.94	180.96	61.16
6	Equity share capital (Face value of Re 1/- per share)	15.91	15.91	15.90
7	Other equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year.			
8	Earnings per equity share (EPS): (face value : ₹ 1 per share) (EPS for the quarter and nine months ended periods is not annualised)			
	a) Basic:	7.48	11.38	3.87
	b) Diluted:	7.48	11.38	3.87
				ű.

Notes:

- 1 The above consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 21 January 2021 and have undergone 'Limited Review' by the statutory auditors of the Company.
- 2 The Board of Directors have declared interim dividend of ₹ 10/- per equity share of face value of ₹1/- each for the financial year 2020-21.
- 3 The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind-AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), specified under section 133 of the Companies Act, 2013.



5 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website at www.kajariaceramics.com.

For and on behalf of the Board

Ashok Kajaria Chairman & Managing Director

KAJARIA CERAMICS LIMITED

Regd Office: SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli-Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon -122001 (Haryana) Corporate Office: J-1/B-1 (Extn), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road New Delhi-110044 Ph: 91-11-26946409, Fax: 91-11-26949544, 91-11-26946407 CIN: L26924HR1985PLC056150, E-mail: investors@kajariaceramics.com, Website: www.kajariaceramics.com

financialexp.epa

The Saudi world view is

challenge from Turkey for leadership of the Sunni **Muslim sphere**

Place: New Delhi Date: 21 January 2021

परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सुचन करण प्रॉसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) (माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ के आदेश तिथि 26 नवम्बर, 2020 द्वारा परिसमापन प्रक्रिया के अंतर्गत कम्पनी) कम्पनी का कार्यालयः प्लॉट नं. 145, डीएलएफ इंडस्ट्रियल इस्टेट नं. 1,

फरीदाबाद, हरियाणा-121003 दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री)

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 6 फरवरी, 2021, 10.30 पूर्वा. से 4.30 अप. (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापन सम्पदा व भाग का निर्माण करने वाली करण प्रॉसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों की बिक्री। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म https://www.eauction.co.in द्वारा की जायेगी।

परिसम्पत्ति/लोकेशन परिसम्पत्तियों का विवरण आरक्षित मुल्य आईएनआर)/ईएमडी प्लान्ट एवं मशीनरी |जिग्गर मशीन, विन्च मशीन, बॉयलर, चिमनी, जीरे जीरो मशीन, स्टैन्टर मशीन, सॉफ्ट फ्लो मशीन, जेट डाइंग मशीन, फर्नीचर एवं साजो-सामान, कार्यालय उपकरण आदि से शामिल प्लान्ट एवं मशीनरी। टिप्पणीः फैक्ट्री पिछले 2 वर्षों से बंद है।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा सम्पत्तियों के अन्य विवरण वेबसाईट अर्थात् http://www.eauctions.co.in पर अपलोड की गई है।

कोई भी संवेदनशील तथा इच्छुक क्रेता उसे देख सकते हैं तथा उसके लिये बोली जमा कर सकते हैं। ई-नीलामी एजेंसी (लिंकस्टार) की ओर से सम्पर्क व्यक्तिः श्री दीक्षित प्रजापति

ईमेल आईडीः insolvencyprofessoinal2019@gmail.com l टेलीफोन नं.: 0120-

आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01639/2019-20/12530 पंजी. पताः चैम्बर नं. एफ-627, लॉयर्स चैम्बर, तिथि: 22.01.2021 स्थान: दिल्ली कडकडडमा कोर्ट, दिल्ली-110032

बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड CIN- L70100DL2010PLC200749 पंजी. कार्यालयः 31, जंगपुरा रोड,

भोगल, नई दिल्ली-110014 कॉर्पोरेट कार्यालयः 21, रिंग रोड, तीसरी मंजिल, सामने का भाग, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024

टेलः 011-2647 7771 वेबसाइटः www.bdrbuildcon.com ई-मेलः info@bdrbuildcon.com

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतदहारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 30 जनवरी, 2021 के 21, रिंग रोड, तीसरी मंजिल, सामने का भाग, लाजपत नगर-IV, नइ दिल्ली-110024 में दोपहर 3.00 बजें में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएगे।

उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.bdrbuildcon.com पर भी उपलब्ध है तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट https://www.nseindia.com/emerge_itp/ पर भी उपलब्ध होगी।

बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड के लिए हस्ता./-राजेश गुप्ता स्थानः नई दिल्ली तिथिः 21.01.2020 प्रबंध निदेशक

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए)

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

निम्न हेत् ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-1. एसटीसी / सीओ / जीएडी / एएलएमआईआरएएचएस / 2021 अंतिम तिथि 03.02.2021

 एसटीसी / सीओ / बीएलडी-ई / 01134 / 2021 अंतिम तिथि 05.02.2021 3. एसटीसी / सीओ / बीएलडी-ई / 01133 / 2021 अंतिम तिथि 28.01.2021

4. एसटीसी / सीओ / जीएडी / ओबी-एफयुआर-एससीआर / 2021 / 01 अंतिम तिथि 10.02.2021 एसटीसी / सीओ / जीएडी / एससीसी / 10525 / 2021 अंतिम तिथि 18.02.2021

कपया अद्यतनों तथा शद्धिपत्र, यदि कोई होगा, के लिए एसटीसी की www.e-procure.gov.in/eprocure/app एवं www.stclimited.co.in नियमित

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम रजि, आफिस : एनडीपीएल हाउस, हंडसन लाइन, किंग्सवे केम्प, दिल्ली—110009 फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, इमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाईट : www.tatapower-ddl.com

.,		Jan 22, 2021 ामंत्रित करता है:
अनुमानित लागत/धरोहर	बोली दस्तावेज	बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय/ निविदा खोलने की तारीख और समय
75 Lac/ EMD-N.A.	25.01.2021	15.04.2021;1500 Hrs 15.04.2021;1600 Hrs Bids shall be submitted in 3 Lots.
37.86 Lac/ 47,000	22.01.2021	12.02.2021;1500 Hrs 12.02.2021;1530 Hrs
	के लिए कि अनुमानित लागत/धरोहर जमा राशि (रु) 75 Lac/ EMD-N.A.	लागत/धरोहर जमा राशि (रु) की बिक्री 75 Lac/ EMD-N.A. 25.01.2021

संशोधित निविदा तिथि/बोली निविदा पूछताछ सं. प्रकाशित जमा कराने की तिथि/बोली कार्य का विवरण खालने की तिथि दिनांक TPDDL/ENGG/ENQ/200001249/20-21 Rfx.- 5000001991/5000001906 27.01.2021 at 1600 Hrs/ 22.10.2020 PO for SITC of IEDs and RTUs in PAN 27.01.2021 at 1630 Hrs TATA Power-DDL

प्तम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents Contracts - 011-66112222

Government of Jammu and Kashmir RESIDENT COMMISSION

 Prithviraj Road, New Delhi-110011, Telephone: 011-24611210, 24611108. Fax No.: 011-24627047, 24601277, Email: jkhsdelhi@gmail.com KRC/Misc/Loundary/19/410-12/2021

Sealed quotations are invited from firms/agencies for providing laundry services at 5-Prithvi Raj Road, 7-Akbar Road and Chanakyapuri, New Delhi

Subject: Invitation of quotations for laundry services.

Interested firms/agencies may submit bid rates in sealed envelope duly addressed to the Manager, J&K House 5-Prithvi Raj Road, New Delhi till 10 days from the date of publication of the notice.

The quotations shall be opened on the next working day and the representatives of the bidders may be present at the time of opening of quotations

Interested bidders shall collect the tender documents along with the list of washing items for which rates have to be quoted by them from Resident Commission Office, Jammu and Kashmir Government, 5 Prithvi Raj Road, New Delhi-110011 any working day upto 5.00 PM.

Terms & Conditions

The successful bidder shall be decided on the overall lowest rates offered by the agency.

Any cuttings, overwriting on the rates quoted shall not be entertained and in case of double rates quoted the lowest rates shall be taken into consideration.

Validity of quotations shall be for a minimum period of three months. Principal Resident Commissioner reserves the right to accept

or reject any or all the offers without assigning any reasons The successful bidder shall attend to the laundry work at the respective sites as per the requirement of this office.

The successful bidder shall be held responsible for any

damage/defect caused due to laundry work and they shall be liable to pay for the damages if any, as calculated by the Manager concerned.

VII. The rates shall be inclusive of GST and all other taxes presently in vogue.

VIII. No conditional bid shall be accepted by this office.

The validity of the contract shall be for a period of one year from the date of its commencement. However, it shall be extended by the competent authority of the Resident Commission after the expiry of the said period as per the requirement of this office.

The bidder should be a registered supplier of Laundry services and shall have successfully supplied the laundry services to any authorized office with satisfactory service.

The bidder shall have GST registration and shall have

Under Secretary No.: JKBI/Advt/1897-99/2021 21.01.2021

successfully filed the GST returns.

Resident Commission J&K Govt. New Delhi

ईमेल आईडी: admin@eauctions.co.in | मोबाईल नं. : + 91 7874138237 परिसमापक की ओर से सम्पर्क व्यक्तिः सीवीआर मर्थि 4370346 | मोबाईल नं.: +91 9868170228 अमरनाथ, परिसमापक

क्षापर बहाता

एवं रिक्न्सटक्शन ऑफ फाइनेशियल असेटस एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टेस्ट एक्ट 2002 तथा सिक्योरिटी इन्टेस्ट एनफोर्समें नेयम 2002 (2002 का एक्ट न0 54) के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बँक ऑफ बडौदा के प्राधिकृत अधिकार्र सम्बन्धित ऋणी को 60 दिनों के मीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था।ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी गरन्टरों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकत अधिकारी ने उक्त अधिनयम की धारा 13 (4) व नियम 8 के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। ऋणी/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें।इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन–देन बैंक ऑफ बढ़ौदा को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार के पूर्ण भूगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त कराने मे उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान को आर्कषित किया जाता है

ऋणी एंव गारन्टर का नाम व पता	बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	तारीख कब्जे / विपकाए गर्य नोटिस	मांग नोटिस की तारीख को बकाया राशि
श्री किशन गुप्ता, श्रीमती रेणु पत्नी राम ऋषि, श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी स्वर्गीय दयाराम गुप्ता, श्री किशन कुमार	निर्मित संपत्ति के सभी भाग और पार्सल मकान नगर निगम नंबर 303 खसरा नंबर 4727 और 4730 (का भाग) स्थित नेहरू नगर कॉलोनी, मेरठ शहर, जिला	14.02.2020		
स्थान : मेरठ	दिनांक : 21.01.2021		प्राधि	विकृत अधिकारी
,				8/

नाम सिक्युरिटीज लिमिटेड CIN:L74899DL1994PLC350531

पंजीकृत कार्यालयः 213, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 ई-मेल आईडीः compliance@namsecurities.in, वेबसाईटः www.namsecurities.in 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.3.2020 (अंकेक्षित) (अनंकेक्षित) 2284.09 6486.96 1145.04 5994.69 2. अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा 20.42 26.04 47.26 41.46 32.42 3. कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा 47.26 32.42 असाधारण मदों के बाद) 4. कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा 29.77 अविध हेतु कुल व्यापक आय (कर के बाद अविध के लिए तथा कर 38.26 29.77 के बाद अन्य व्यापक आय से शामिल लाभ/ (हानि) 305.01 539.20 305.01 305.01 253.74 आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष अंकेक्षित तुलन पत्र मे दर्शाया गया है 0.98 8. आय प्रति शेयर (ईपीएस) असाधारण मदों से पूर्व मूल (रु.) 0.53 0.71

उपरोक्त विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 31 दिसम्बर, 2020 के समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.namsecurities.in) पर उपलब्ध हैं।

0.53

1.02

1.32

0.98

9. आय प्रति शेयर (ईपीएस) असाधारण मदों के बाद तरल (रु.)

टिप्पणी:

कम्पनी ने 1.4.2019 से इंड ए एस अपनाई है। तदनुसार उक्त वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों तथा सेबी सर्क्युलर तिथि 5 जुलाई, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड ए एस में वर्णित पहचान तथा मापन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के वित्तीय परिणामों को लागू होने वाले इंड ए एस समायोजनों को निगमित करने के बाद प्रस्तुत किया गया है।

्उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा बाद में 21 जनवरी, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वार अनमोदित किये गये। नाम सिक्युरिटीज लिमिटेड के लिये

(किरण गोयल स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक तिथि: 21 जनवरी, 2021 **DIN No: 00503357**

नाबालिंग से बलात्कार, हत्या मामले में दो को मृत्युदंड

सागर (मप्र), 21 जनवरी (भाषा)।

सागर जिले की एक अदालत ने करीब दो साल पहले नाबालिंग बालिका की सामृहिक बलात्कार के बाद हत्या के मामले में दो व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मृत्युदंड पाने वालों में से एक बालिका का चांचा व दूसरा उसका चचेरा भाई है।

विशेष लोक अभियोजक ताहिर खान ने गुरुवार को बताया कि बंडा के अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने 42 वर्षीय व्यक्ति व उसके 25 वर्षीय बेटे को नाबालिंग के साथ सामृहिक बलात्कार व उसकी हत्या करने का दोषी करार देते हुए मंगलवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। खान ने बताया कि अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम करार दिया। खान ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों द्वारा अबोध बालिका की बर्बरतापर्वक हत्या की गई है। अदालत ने कहा कि

यह मामला दुर्लभतम मामले की श्रेणी में आता है। अदालत ने कहा कि दोनों दोषी बालिका के परिवार के सदस्य हैं और उन पर उसके पालन-पोषण व सुरक्षा का दायित्व था, लेकिन उन्होंने उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार कर उसकी हत्या का कृत्य किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने इन दोनों पर भादंवि की धारा 376 (घ)(ख) में मृत्युदंड की सजा देने के साथ-साथ भादंवि की धारा 302 में भी मृत्युदंड से दंडित किया है। खान ने कहा कि इस बच्ची को आरोपियों द्वारा 13 मार्च, 2019 को उस वक्त बहला-फुसला कर ले जाया गया था, जब वह परीक्षा देने स्कूल जा रही थी। उन्होंने बताया कि 14 मार्च. 2019 को फरियादी ने थाना बंडा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गया है। पुलिस ने बालिका की खोज शुरू की और उसी दिन बंडा थानाक्षेत्र इलाके में इसकी लाश मिली।

एनसीबी ने मुंबई में 12

किलो से अधिक मादक

पदार्थ बरामद किए

(एनसीबी) ने दक्षिण मुंबई के

डोंगरी क्षेत्र में एक प्रयोगशाला पर

छापा मारा और इस दौरान 12

किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ

कि भगोड़े माफिया सरगना दाऊद

इब्राहिम के गुर्गे परवेज खान उर्फ

चिंकू पठान समेत तीन लोगों को

मादक पदार्थ नेटवर्क के सिलसिले

से जारी छापों के दौरान एनसीबी

की मुंबई जोनल इकाई ने डोंगरी में

एक ड्रग प्रयोगशाला का भंड़ाफोड़

किया और वहां से 12 किलोग्राम से

अधिक मादक पदार्थ, 2.18 करोड़

रुपए की नकदी और एक

स्वचालित रिवाल्वर बरामद की।

उन्होंने बताया कि गोपनीय सुचना

पर एनसीबी की टीम ने बधवार को

खान को नवी मुंबई में स्थित उसके

घर से गिरफ्तार किया था। एजंसी ने

खान के घर से 52.2 ग्राम मेफेड्रोन

और नौ एमएम की एक पिस्तौल

बरामद की थी। एनसीबी की टीम

ने बुधवार की शाम डोंगरी में नुर

मंजिल बिल्डिंग में खान के सहयोगी

आरिफ भुजवाला के घर पर भी

वेब सीरीज 'तांडव'

के खिलाफ जम्मू

में प्रदर्शन

जम्मू, २१ जनवरी (भाषा)।

और कछ अन्य संगठनों

ने विवादास्पद वेब सीरीज

'तांडव' के खिलाफ यहां

गुरुवार को अलग-अलग

प्रदर्शन किया। इन

संगठनों का आरोप है कि

'तांडव' में हिंदू देवी-

आपत्तिजनक तरीके से

प्रदर्शित किया गया और इससे धार्मिक भावनाओं

राष्ट्रीय बजरंग दल के

सैकडों कार्यकर्ताओं ने इसके प्रमख राकेश कमार

के नेतत्व में यहां एक

रैली निकाली और सीरीज

के निर्माताओं की

गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री

अमित शाह से इस मामले

में सख्त कार्रवाई करने

का अनुरोध किया, ताकि

कोई भी व्यक्ति देश में

को ठेस पहुंचती है।

देवताओं

राष्ट्रीय बजरंग दल

छापेमारी की थी।

अधिकारी ने बताया कि बधवार

में गिरफ्तार किया जा चुका है।

अधिकारी ने गुरुवार को बताया

और एक रिवाल्वर बरामद की।

नियंत्रण ब्यूरो

मुंबई, 21 जनवरी (भाषा)।

पंजाब नैष्टानल बैंक 💟 punjab national bankthe name you can BANK upon!

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग प्र.का.सी—13, सैक्टर—1, नोएडा 201301 (उ.प्र.) Email: ptgstn@pnb.co.in | Tel: 120-4968003

निविदा सचना

पंजाब नैशनल बैंक पात्र बोलीदाताओं से " मद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, प्र. का, सी-13, सैक्टर-1 , नोएडा 201301 (उ.प्र.)" में संस्थापित सहायक उपकरणो सहित फायर अलार्ग , फायर डिटेक्शन, फायर पम्प, फायर हाइडेन्ट एवं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के परिचालन व रखरखाव/परीक्षण तथा 24X7 घंटों के लिये जन-प्रबंधन के वार्षिक अनुबंध (non-comprehensive)" हेतु (तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों) ऑनलाइन बिंड आमंत्रित करता हैं।

अनुमानित लागत रु. 11,05,000/-बयाना रकम / ईएमडी रू. 22,000/-

इच्छक बोलीदाता विस्तृत निवेदन प्रस्ताव दस्तावेज हमारी ई—प्रोक्योरमैंट वैबसाइट https://etender.pnbnet.in/login से डाऊनलोड कर सकते हैं। बिंड को हमारे ई—प्रोक्योरमेंट् सिस्टम् के माध्यम से डिजिटल प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर और कूट लेखन दोनों) का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन जमा कराना अनिवार्य है । ऑनलाइन बिड तैयार करने और हैश जमा करने की अंतिम तिथि 04.02.2021 को 14:00 बजे तक

कोई भी शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण / तिथि का विस्तार हमारी वेबसाइट https://etender.pnbnet.in/login पर ही प्रकाशित किया जाएगा । मुख्य प्रबंधक



एस्कॉर्ट्स लिमिटेड

CIN: L74899HR1944PLC039088 पंजीकृत कार्यालयः 15 / 5, मथुरा रोड, फरीदाबाद -121003, हरियाणा फोन नं: 01292250222, ई-मेल: corpsl@escorts.co.in, वेबसाइट: www.escortsgroup.com

(भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अधिनियम 29 के साथ अधिनियम 47 के अंतर्गते (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015)

यह सूचित कियां जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार 2 फरवरी, 2021 को परस्पर विचार कर स्वीकृति देने व 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हुई तिमाही और 9 महीने के लिये केंपनी अनधिकृत वित्तीय परिणामों (स्टेंडअलीन एन्ड कंसोलिडेटेड) को संज्ञान में लेने के लिये आयोजित की जा रही है। वित्तीय फैंसले कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के

इसके अलावा उक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.escortsgroup.com पर भी उपलब्ध है और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी प्राप्त की जा सकती है।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार एस्कॉर्ट्स लिमिटेड हेतु

स्थानः फरीदाबाद दिनांकः जनवरी 21, 2021

सत्येंद्र चौहान कंपनी सचिव व कम्पलायंस ऑफिसर

प्रपत्र – बी सार्वजनिक उदघोषणा (भारतीया दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियमन 12

(परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016) अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के स्टेक होल्डरों के अवधान के लिए

g.	ब्योरा	विवरण
1,	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	07/09/2010
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	आर ओ सी – दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित देयता पहचान संख्या	U72900DL2010PTC207909
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमुख कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	वुकान नं. 107 प्रथम तल रिशम आई पी ई एक्स मॉल, अ पी ऐक्सटेंशन, दिल्ली, नई दिल्ली, डीएल 110092 इण्डिया
6.	दिवाला शोधन प्रक्रिया की अन्तिम तारीख	17/01/2021
7.	कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन प्रारंभ की तारीख	18/01/2021
8.	परिसमापक के रूप में समाधान प्रोफैशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	राजीव भटनागर IBBI/IPA-001/IP-P00075/2017-18/1016
9.	परिसमापक का नाम, पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	राजीव भटनागर एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट, सी -5 प्रथम तल, कॉर्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, आवास विकार नैनीताल रोड, रुद्रपुर, उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड, 26315 Email:carajivbhatnagar@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए	राजीव भटनागर एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट, सी -5

दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17/02/2021 सूचना यहाँ दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच (कोर्ट II) ने 18.01.2021 को मै. अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापन की शुरू करने का आदेश दिया है।

उपयोग किए जाने वाला पता और ईमेल प्रथम तल, कॉर्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, आवास विकास

मै. अब्लेज इन्फो सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड के स्टेक होल्डरों को इसके बाद 17.02.2021 को आइटम नंबर 10 के खिलाफ उल्लेखित पते पर परिसमापक को प्रमाण के साथ या उससे पहले अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ दावों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों का गलत या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करना दंड को आकर्षित करेगा। दिनांक- 21.01.2021

स्थान – रुद्रपुर

राजीव भटनागर

नैनीताल रोड, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, 263153

Email:ablazeliquidator@gmail.com

भविष्य में देवी-देवताओं परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर का अपमान करने का साहस नहीं करे। प्रीत विहार मिड कॉर्पोरेट शाखा,

वैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India Relationships beyond banking.

6, पंजतानी को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी पार्क एंड रोड, प्रीत विहार, दिल्ली-110092, फोन नं.-011-22421516, 22421514 जैसा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया

(संस्थान का नाम) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी ऋणधारक को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि तथा यूसीआई तथा उस पर अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 18 जनवरी, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित्त प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय सूचना में वर्णित राशि तथा यूसीआई तथा उस पर अन्य चार्जेज एवं ब्याज के लिये बैंक ऑफ इंडिया, प्रीत विहार, मिड कॉर्पोरेट शाखा (संस्थान का नाम) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (८) के पावधानों के पति आकष्ट की जाती है।

पारा (७) क त्राववाना क त्र	पारा (७) क श्रापपाना क श्रारा जाकृष्ट का जाता है।									
ऋणधारक का नाम एवं पता	मांग सूचना तिथि	तिथि को बकाया राशि	अचल सम्पत्ति⁄ चल सम्पत्तियों का विवरण							
श्रीमती मृदुला शर्मा	12.6.2019	रु. 10,57,872.60 तथा यूसीआई तथा उस पर अन्य चार्जेज एवं ब्याज	ई-854, एमआईजी फ्लैट, भूतल, सेक्टर-11, प्रताप विहार, गाजियाबाद (उ.प्र.) आवासीय, चौहद्दीः उत्तरः फ्लैट नं. ई-853, दक्षिणः फ्लैट नं. ई-855, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः सड़क							
श्री संजय केन्टुरा तथा श्रीमती संगीता केन्टूरा	31.7.2019	रु. 15,95,656.10 तथा यूसीआई तथा उस पर अन्य चार्जेज एवं ब्याज	II रा तल, प्लॉट नं. III, एफ-547, सेक्टर-03, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (आवासीय) में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः 40 फीट चौड़ा रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 548, पूर्वः प्लॉट नं. 546, पश्चिमः 20 फीट चौड़ा रोड							

स्थानः नर्ड दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया ितिथि: 18.01.2021,

एस आर एफ्र लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091

फोन (पंजीकृत कार्यालय): (+91-11) 49482870 | फैक्सः (+91-11) 49482900 | ई-मेलः info@srf.com | वेबसाइटः www.srf.com | सीआईएनः L18101DL1970PLC005197

31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु अनअंकेक्षित एकल एवं संचित वित्तीय परिणाम

			एव	ग्ल		संचित				
		समाप्त	तिमाही	समाप्त नौ माह		समाप्त	तिमाही	समाप्त नौ माह		
क्र. सं	विवरण	31 दिसम्बर 2020	31 दिसम्बर 2019							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
		अनअंकेक्षित								
1	संचालनों से कुल आय	1810.86	1651.84	4865.11	4684.32	2146.41	1850.49	5792.39	5351.58	
2	जारी प्रचालनों से कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि)	369.72	221.13	877.04	585.77	442.75	259.06	1100.99	695.06	
3.	जारी प्रचालनों से कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)*	256.65	311.77	614.02	619.01	324.25	345.47	816.80	721.74	
4.	बंद प्रचालनों से कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि)	\$	920	2	241.82	(1.85)	(2.75)	(2.14)	165.17	
5.	बंद प्रचालनों से कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि)	55	A-8	B	180.59	0.48	(2.48)	0.22	111.60	
6.	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (बंद प्रचालनों सहित)	256.65	311.77	614.02	799.60	324.73	342.99	817.02	833.34	
7.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल कर के]	269.84	293.79	675.19	764.02	385.27	355.50	937.83	840.07	
8.	प्रदत्त समता अंश पूँजी	59.25	57.48	59.25	57.48	59.25	57.48	59.25	57.48	
9.	प्रदत्त ऋण पूँजी/बकाया ऋण	011001200		250.00	300.00			250.00	300.00	
10.	प्रति अंश आय (रु.10 /- प्रत्येक के) (जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु)									
	(अ) मूलभूत	43.54	54.24	105.92	139.11	55.09	59.67	140.95	144.98	
	(ब) तरल	43.54	54.24	105.92	139.11	55.09	59.67	140.95	144.98	

* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए को कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा पेश किया गया था। धारा 115बीएए के अन्तर्गत विकल्प के प्रयोग के अपेक्षित समय के वर्तनाम अनुमान के आधार पर, कम्पनी ने अपने स्थगित कर शेष राशि का पुनः आकलन किया है। परिणाम स्वरूप, 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में रु 123.42 करोड़ रुपये (शुद्ध मैट समायोजन) क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड किये गये हैं।

कते एवं मंडल की ओर से

आशीष भरत राम

प्रबन्ध निदेशक

हम हमेशा एक बेहतर तरीका ढूँढते हैं

टिप्पणी:

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक: 21 जनवरी, 2021

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेन्जों के पास दाखिल किए गए तिमाही एवं समाप्त नौ माह हेत् वित्तीय परिणामों का उद्धरण है। तिमाही एवं समाप्त नौ माह के परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइट (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.srf.com) पर उपलब्ध है।

रसायन व्यवसाय | पैकेजिंग फिल्म व्यवसाय | टेक्निकल टेक्सटाइल व्यवसाय

www.readwhere.com